

August Month Portions

पाठ - दादी का चश्मा
 पाठ - शेर और लड़का
 निबंध - शिक्षा का महत्व

पाठ - दादी का चश्मा

I शब्दार्थ Page No - 24, 25, 26, 27, 28

II) बोलकर उत्तर दो :

क) एकता देखना चाहती थी कि चश्मा लगाकर कैसा लगता है।

ख) दादी को भी अखबार पढ़ने में परेशानी हो रही थी नौ उनको पता चलता कि उनकी आँखें कमजोर हो गई हैं।

ग) दादी का चश्मा लगाकर चलने पर एकता को जमीन ऊँची - नीची दिख रही थी जिससे वह गिर गई और उसके घुटने छिल गए।

2) रिक्त स्थानों को भरें :

क) चश्मा ख) चोरी ग) दूध, फल, दारि साज्जेश
 घ) ऊँची - नीची

3) सही या गलत लिखिए :

क) ✓ ख) × ग) × घ) ✓

4) उत्तर दी :

क) दादी ने बताया कि बुढ़ापे में आधिकतर लोगों की आँखें कमजोर हो जाती हैं। बुढ़ापे के कारण ही उनकी भी आँखें कमजोर हो गई हैं।

ख) बहुत ज्यादा टी.वी. देखने, देर तक मोबाइल और कंप्यूटर पर काम करने या शरीर के अंदर विटामिन 'ए' की कमी होने के कारण आँखों में परेशानी हो सकती है।

क) उ० प्रकता दादी से उनका चश्मा माँग रही थी। दादी ने चश्मा देने से मना किया क्योंकि किसी अन्य का चश्मा लगाने से बच्चों की आँखें खराब हो सकती हैं।

ख) उ० प्रकता ने अपने सिर में दर्द का कारण आँखों का कमजोर होना बताया क्योंकि वह दादी का चश्मा लगाकर देखना चाहती थी।

ग) उ: दादी ने प्रकृता को आँखों का स्वस्थ रहने के लिए रोज़ सुबह-शाम दूध पीने और ~~सब्जियाँ~~ ^{सब्जियाँ} खाने को कहा। इसके अलावा विटामिन 'ड' वाली चीज़ें जैसे, गाजर, टमाटर, पपीता, संतरा खाने का सुझाव दिया।

घ) उ: दादी का चश्मा लगाने से प्रकृता को ज़मीन उँची-नीची दिख रही थी, जिससे वह ठीक से चल नहीं पाई और स्कूल गेट के पास धड़ाम से गिर गई। वह सीखा कि आगे से वह दूसरों का चश्मा नहीं लगाएगी।

7) व्याक्तिवाचक संज्ञा - मालती, कुवणा

जातिवाचक संज्ञा - दादी, डॉक्टर

भाववाचक संज्ञा - भोलापन, बुढ़ापा

9) क) झुंड ख) गुच्छा ग) कक्षा घ) परिवार

10) क) सभा ख) दल ग) गिरेह घ) गड़ड़ी

इ) टोली

11) व्याक्तिवाचक - चंदनपुर, गव्वर, जम्बी, चिंदू

जानिवाचक - जंगल, पेड़, शेर, नदी, छाया,
बेकर

भाववाचक - लहादुरी, चालाकी, शबाशी,
प्रकृता

समूहवाचक - सभा, झुंड, टोली

पाठ - शेर और लड़का

1) क) लड़का जंगल में गाय-बैलों को चराने
जाता था।

ख) लड़का झरने के किनारे मछलियाँ पकड़
रहा था।

ग) जब गाय नहीं मिली तब लड़के ने जानवरों
को बाड़ में बाँधा और गाय की तलाश में
निकल पड़ा।

घ) पेड़ पर चढ़कर सोये लड़की की नींद
इसलिए थग गई क्योंकि पेड़ के नीचे
एक शेर खड़ा उसकी ओर ललचाई
नज़रों से देख रहा था।

2) क) मछलियाँ पकड़ने के लिए

ख) गाय खो गई थी

ग) पानी पीने

घ) शेर भाग गया

3) क) ^x ख) ^x ग) ^x घ) ^x ङ) ^x

4) क) नाराज ख) कुश्ता, शिकारी

ग) सावधान घ) चौकने

5) क) लड़का धबरा गया क्योंकि उसकी डक गाय
गुम हो गई थी।

ख) लड़का अन्य सभी जानवरों को लेकर घर
लौटा और उन्हें बड़े में बाँधकर, बिना किसी
से कुछ कहे गाय की तलाश में निकल पड़ा।

ग) कुश्ता लहराता हुआ देख लोग उस पेड़ की
ओर बढ़ने लगे जिसपर वह लड़का बैठा था।

घ) लड़के द्वारा शेर से सावधान करने पर लोग
सँभल गए, इस्टपट बंदूकों में गालियाँ अरीं
और चौकन्ना होकर आगे बढ़ने लगे।

क) पेड़ पर बैठे लड़के ने लोगों का ध्यान अपनी ओर करने के लिए पेड़ की सबसे ऊपर की डाली पर चढ़कर अपना संकेद कुत्ता उतारकर दवा में लटकाया।

ख) लड़के ने मालिक के गाथ को गूँस हो जाने के बारे में इसलिये नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि अगर गाथ नहीं मिली तो उसका मालिक नाराज़ होगा।

ग) जिस गाथ को ढूँढने के लिए वह जंगल गया था वह गाथ तो उसी दिन घर पहुँच गई थी। इस बात को जानकर लड़के का शकत मिली और वह भ्रूख-प्यास से शक्ति न होने पर भी हँस पड़ा।

घ) प्रकवचन - लड़का, इरना, कुत्ता, बाड़ा

बहुवचन - लड़के, इरनें, कुत्ते, बाड़े

प्रकवचन - मछली, गोली, धाती, डाली

बहुवचन - मछलियाँ, गोलियाँ, धातियाँ, डालियाँ

- 9) क) एकवचन ख) बहुवचन ग) एकवचन
घ) बहुवचन इ) एकवचन च) बहुवचन
छ) एकवचन ज) बहुवचन

- 10) क) लगे ख) घंटा ग) पेड़ों घ) बैठे इ) दाय

निबंध

शिक्षा का महत्व

- * शिक्षा व्यक्ति को विभिन्न विषयों के बारे में ज्ञान प्रदान करती है।
- * शिक्षा आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान प्रदान करती है।
- * शिक्षा व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करती है।
- * शिक्षा हमारे व्यक्तित्व, चरित्र और आदर्शों का निर्माण करती है।
- * शिक्षा के बिना हमारा जीवन अधूरा लगता है।
- * शिक्षा व्यक्ति को स्वतंत्र बनाने में सहायक होती है।